

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए शारीरिक दूरी को लागू करने हेतु प्रत्येक अपराध के लिए \$100,000 तक के जुर्माने का बाइ-लॉ पास किया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (31 मार्च, 2020) – आज, मेयर पैट्रिक ब्राउन ने निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बचाव में मदद के लिए, ब्रैम्पटन COVID-19 एमरजेंसी मेजर्स बाइ-लॉ (Brampton COVID-19 Emergency Measures By-law) पर हस्ताक्षर किए। सिटी काउंसिल (City Council) ने स्टाफ को निर्देश किया कि वह 25 मार्च, 2020 को काउंसिल की विशेष मीटिंग (Special Meeting) में संशोधित बाइ-लॉ के अमल की पड़ताल करे।

नया बाइ-लॉ, समुदाय में COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) को फैलने से रोकने में मदद के लिए कुछ गतिविधियों को वर्जित करता है और शारीरिक दूरी को आवश्यक बनाता है। जो लोग शारीरिक दूरी के विनियम का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्रत्येक अपराध के लिए न्यूनतम \$500 का और अधिकतम \$100,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

इस बाइ-लॉ के अंतर्गत आने वाले म्युनिसिपल विनियमों में शामिल हैं:

- लोगों को किसी भी सार्वजनिक प्रॉपर्टी पर एक-दूसरे से 2.0 मीटर से कम दूरी रखने से वर्जित करना (उन लोगों को छोड़कर, जिनके साथ वे रहते हैं);
- कारोबारियों को, लोगों को 2.0 मीटर से कम दूरी पर बैठने या खड़े होने देने की अनुमति देने से वर्जित करना, चाहे वे व्यापारिक संस्थान के अंदर हों या बाहर (उन लोगों को छोड़कर, जिनके साथ वे रहते हैं);
- लोगों को सिटी की निम्नलिखित प्रॉपर्टी में से किसी का भी उपयोग करने से वर्जित करना:
  - प्लेग्राउंड्स और पार्को में अन्य स्थान;
  - बिना जंजीर बांधे कुत्तों के लिए पार्क (डॉग पार्क);
  - पिकनिक शेल्टर;
  - सभी आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और आउटडोर फिटनेस उपकरण, जिनमें शामिल हैं स्पोर्ट्स फील्ड्स, बास्केटबॉल और टेनिस कोर्ट्स;
  - रेक्रिएशन सेंटर्स और आसपास के स्थान; और
  - पार्किंग लॉट्स।

सिटी, ब्रैम्पटन के निवासियों को सूचनाएं देते रहने के लिए प्रतिबद्ध है। यह COVID-19 के लिए सिटी की प्रतिक्रिया के बारे में ताज़ा जानकारी उपलब्ध होते ही निवासियों को वह जानकारी देना जारी रखेगी। उपरोक्त फैसलों के बारे में और COVID-19 की प्रतिक्रिया में समुदाय को सहयोग करने के लिए सिटी के सभी प्रयासों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [www.brampton.ca/COVID19](http://www.brampton.ca/COVID19) पर जाएं अथवा @CityBrampton को [Twitter](https://twitter.com/CityBrampton), [Facebook](https://www.facebook.com/CityBrampton) और [Instagram](https://www.instagram.com/CityBrampton) पर फॉलो करें।

### संक्षेप तथ्य

- 25 मार्च, 2020 को 15,708 प्रतिभागियों के साथ COVID-19 टेली टाउन हॉल (COVID-19 Tele Town Hall) में, 76 प्रतिशत लोगों ने वोट के माध्यम से बताया था कि वे शारीरिक दूरी न रखने वाले लोगों पर, सिटी स्टाफ द्वारा जुर्माना लगाने का समर्थन करते हैं।

- 27 मार्च, 2020 को, ओन्टारियो प्रांत (Province of Ontario) ने म्युनिसिपल्टीज को बताया था कि उसने ऐसा कानून पास किया है, जो सिटी के म्युनिसिपल लॉ एन्फोर्समेंट अफसरों को, *एमरजेंसी मैनेजमेंट एंड सिविल प्रोटेक्शन एक्ट (Emergency Management and Civil Protection Act)* के अंतर्गत, प्रांत द्वारा पास किए विनियमों को लागू करने का अधिकार देता है।
- 26 मार्च तक, ब्रैम्पटन में सभी 500+ पार्क और प्लेग्राउंड अगले नोटिस तक, जनता के लिए बंद कर दिए गए हैं।
- हाल ही में, COVID-19 को फैलने से रोकने के प्रयास में, जरूरी बनाम गैर-जरूरी कारोबार नियत करते हुए कानून पास किया गया था।
  - यदि निवासी कानून का पालन न करने वाले किसी कारोबारी की, सिटी के स्वामित्व वाली उन फैसिलिटीज का उपयोग करने की, जो बंद हैं (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) या पांच लोगों से अधिक के एकत्र होने की रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें 311 पर फोन करने का अनुरोध किया जाता है। अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, एक बाइ-लॉ एन्फोर्समेंट अफसर और/अथवा सिविल प्रोटेक्शन अधिकारी शिकायत की जांच करेगा। शिकायत उचित होने पर संबंधित लोगों पर जुर्माना लग सकता है।
  - यदि निवासी कानून का पालन न करने वाले, किसी बार या रेस्टोरेंट जैसे भोजन संबंधी संस्थान की रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो वे पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) को 905.799.7700 पर रिपोर्ट कर सकते हैं।

### हवाले

“हमारे निवासियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा, हमेशा सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की प्राथमिकता रही है, लेकिन अब विशेष तौर पर। हम सभी के लिए COVID-19 की गंभीरता को समझना और इसे फैलने से कम करने के लिए साथ मिलकर काम करना आवश्यक है। हमारे समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए, सिटी लगातार कोई भी आवश्यक उपाय लागू करती रहेगी। मैं सभी निवासियों से अनुरोध करता हूँ कि वे ब्रैम्पटन COVID-19 एमरजेंसी मेजर्स बाइ-लॉ का पालन करें और हमेशा शारीरिक दूरी कायम रखें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन COVID-19 एमरजेंसी मेजर्स बाइ-लॉ के लागू होने से, सिटी का स्टाफ, COVID-19 को फैलने से रोकने के हमारे प्रयासों में हमारे समुदाय में शारीरिक दूरी का प्रचार कर पाएगा। स्टाफ और निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का बचाव करने के लिए सिटी कोई भी आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगी।”

- डेविड बैरिक् (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)